



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, जून 6—जून 12, 2010, शनिवार/ज्येष्ठ 16—ज्येष्ठ 22, 1932  
No. 11] NEW DELHI, JUNE 6—JUNE 12, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 16—JYAISTHA 22, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मई, 2010

का.नि.आ. 23.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में वायुसेना मुख्यालय के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारी वृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

पूर्वी वायु कमान (यूनिट), वायुसेना  
द्वारा 99 सेना डाकघर

[सं. 1 (1)/2007-रक्षा (रा.भा. 1)]

उपमन्यु चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th May, 2010

S.R.O. 23.—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Air Headquarters more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

Eastern Air Command (Unit), IAF  
C/o 99 APO

[No. 1(1)/2007-D(OL-1)]

UPAMANYU CHATTERJEE, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 2010

का.नि.आ. 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 को अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, पुणे, में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध, को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	1* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	--	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)	(12)
------	------

संयुक्त पद्धति-पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है)  
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी निकायों या अर्ध सरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर अपने मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण करते हैं, या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 के 9300-34800 रु. में 4800 रु. ग्रेड वेतन के साथ मूल काडर में नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दो वर्षों की नियमित सेवा की है, या समतुल्य या

(iii) जिन्होंने मूल काडर में वेतन बैंड-2 के 9300-34800 रु. में 4600 रु. ग्रेड वेतन के साथ नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की है या समतुल्य और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो :

आवश्यक :

(क) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य;

(ख) स्थापन और कार्मिक प्रशासन में पांच वर्षों का अनुभव

टिप्पण 1—वेतन बैंड-2 के 9300-34800 रु. में 4600 रु. ग्रेड वेतन के साथ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के ऐसे स्थापन अधिकारी के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2—फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्ति किए गए व्यक्ति प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले पारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण 3—पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को जिस तारीख से विस्तार

(12)

दिया गया है ऐसी सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी वेतन या वेतनमान में दी गई सेवा समझी जाएगी।

**टिप्पण 4**—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियमित आधार पर की गई वह सेवा जो अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले की गई है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक समान ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में सम्मिलित किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद के लिए विस्तारित किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी, उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापित ग्रेड है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 15454/ए.ओ./आर.आर./एनडीए/आई डी एस/कार्मिक/215/र. (नि.)/2010]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 2010

**S.R.O. 24.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Defence Academy (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1989 except: as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the National Defence Academy, Khadakwasla, Pune under Headquarters Integrated Defence Staff, Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Headquarters Integrated Defence Staff, the National Defence Academy (Administrative Officer) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection of post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrative Officer	1* (2010) (*Subject to variation dependent upon the workload)	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/-	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Composite Method - promotion or deputation (Including Short Term Contract)	<p><b>Promotion or deputation (Including Short Term Contract)</b></p> <p>Officers under the Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous bodies or Semi-Government organizations :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 with the grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Pay Band-2 of</p>

2042 GI/10-2

(12)

Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre or Department and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience.

**Essential :**

(a) Degree of a recognized University or equivalent;

(b) Five years' experience in establishment and personnel administration.

**Note 1 :** The Establishment Officer of National Defence Academy in the scale of Pay Band-2 of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4600 with three years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

**Note 2 :** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of Deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

**Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the VI Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

**Note 4 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by any officer prior to 1 st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the VI Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission is necessary

[F.No. 15454/AO/RRs/NDA/IDS/PERS/215/D(APPTTS)/2010]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 2010

का.नि.आ. 25.—रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का VII) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के मावल तालुका के कुरवंडे गांव में गुट 173 (पुराना सर्वे सं. 111) में स्थित भूमि के लोनावाला, पुणे में भा.नौ.पो. शिवाजी के निकट और समीपस्थ होने के कारण एतद्वारा इस आशय की घोषणा की जाती है कि इस भूमि के इस्तेमाल और उपभोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) और धारा 39 की उपधारा (4) के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिबंध लगा दिए जाएं जिससे इस प्रकार की भूमि को भवनों और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जाए जैसा कि इसके साथ संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित है।

2. जिला कलेक्टर, पुणे, महाराष्ट्र के कार्यालय में इस भूमि के आरेख का निरीक्षण किया जा सकता है।

[फा. सं. 11(3)/2009-रक्षा (नौसेना-III)]

बिनय कुमार, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

## भूमि का विवरण

गांव का नाम	प्लॉट सं. अथवा सर्वे सं.	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	भू-स्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
कुरवंडे	गुट सं. 173 (पुराना सर्वे सं. 111)	11.0903 एकड़ (4.49 हेक्टेयर)	श्री संजय कानुभाई पटेल पुत्र श्री कानुभाई पटेल, 501, गोल्डन बंगला, 26, जुहू रोड, सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के निकट, सांताक्रूज (प.), मुंबई-400054  श्री गोविंद बजरंग तायाडे, पुत्र श्री बजरंग तायाडे, तापड़िया नगर, अकोला जिला, महाराष्ट्र।

New Delhi, the 31st May, 2010

S.R.O. 25.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act 1903 (VII of 1903), it appears to the Central Government that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 and sub-section (4) of Section 39 of the said Act upon the use and enjoyment of land situated in Gut 173 (old survey No. 111) at village- Kurvande, Taluka- Maval, District- Pune in the State of Maharashtra, as described in the Appendix annexed hereto, being land contiguous to and in the vicinity of INS Shivaji at Lonavala, Pune in order that such land may be kept free from buildings and other obstructions, the declaration is hereby made to that effect.

2. A sketch of the land may be inspected in the office of the District Collector, Pune, Maharashtra.

[F.No. 11(3)/2009-D(N-III)]

BINOY KUMAR, Jt. Secy.

## APPENDIX

## DESCRIPTION OF LAND

Name of Village	Plot number or Survey number	Area of the land in Acres	Name of the Owner
1	2	3	4
Kurvande	Gut No. 173 (Old Survey No. 111)	11.0903 acres (4.49 hectare)	Shri Sanjay Kanubhai Patel S/o Shri Kanubhai Patel, 501, Golden Bungalow, 26, Juhu Road, Opp Santacruz Police Station, Santacruz(W), Mumbai - 400054. Shri Govind Bajarang Tayade, S/o Shri Bajarang Tayade Tapadia Nagar, Akola, Distt. Maharashtra.